



**POLICE COMMISSIONERATE**



## **GAUTAM BUDH NAGAR**

**सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 01.10.2021**

**1-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा 01 मोबाइल फोन लूटेरा/वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध चाकू व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।**

दिनांक 01/10/2021 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 मोबाइल फोन लूटेरा/वाहन चोर आहिल चौधरी पुत्र हारुन चौधरी निवासी ग्राम पावी सिसौला, थाना जानी, जिला मेरठ वर्तमान पता भाटी का मकान, नियर मलिक नर्सिंग होम, 165-ए मयूर बिहार, फेस-3 दिल्ली को थाना क्षेत्र के सेक्टर-34 मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से लूट/चोरी के 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध चाकू व 01 चोरी की स्कूटी(दिल्ली से चोरी) बरामद की गई है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

आहिल चौधरी पुत्र हारुन चौधरी निवासी ग्राम पावी सिसौला, थाना जानी, जिला मेरठ वर्तमान पता भाटी का मकान, नियर मलिक नर्सिंग होम, 165-ए मयूर बिहार, फेस-3 दिल्ली।

### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1.मु0अ0सं0 950/2021 धारा 414/411 भादवि थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 951/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-24 गौतमबुद्धनगर।


3.ई एफआईआर-020275 थाना क्राईम ब्रान्च आटो थैफ्ट, धारा 379 भादवि दिल्ली।

## **बरामदगी का विवरण:**

1.लूट/चोरी के 02 मोबाइल फोन

2.01 अवैध चाकू

3.01 चोरी की स्कूटी रजि नं0 डीएल 7 एससीएफ 5321(दिल्ली से चोरी)



**2-थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 लुटेरे बदमाश घायल अवस्था में व 02 बदमाश कांबिंग के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 02 खोखा कारतूस, 02 जिन्दा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो(लूटा हुआ), 01 कलपुर्जे खुला हुआ ऑटो व 01 ऑटो का इंजन बरामद।**

दिनांक 30/09/2021 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के सेक्टर-98 की ओर जाने वाला सर्विस रोड के पास हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 बदमाश 1.अर्जुन पुत्र अशोक निवास मण्डी जैन भजनपुरा दिल्ली वर्तमान पता ग्राम मढिया, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर(मुठभेड़ में घायल) 2. विश्वास पुत्र मथुरा दास निवासी ग्राम झाझर, थाना ककोड़ जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम मढिया, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर(मुठभेड़ में घायल) को पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलायी गयी गोली पैर में लगने के कारण घायल अवस्था में व 02 अन्य बदमाश 1.मोमराज पुत्र जगदीश निवासी शेखपुर, थाना धनारी, जिला सम्भल 2. अरविन्द्र उर्फ अर्जुन पुत्र जयराम निवासी अलीपुर खादर, थाना हसनपुर, जिला अमरोहा वर्तमान पता मढिया, थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर को कांबिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे 315 बोर,

02 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो नं0 यूपी 16 सीटी 7613(असली नं0 यूपी 16 बीटी 1086) सम्बन्धित मु0अ0सं0 776/2021 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर 39, नोएडा, 01 ऑटो कलपुर्जे खुला हुआ व 01 ऑटो का इन्जन बरामद किया गया है।

अभियुक्त शातिर किस्म के लूटेरे/चोर है। जिनके द्वारा सेक्टर-37 चौराहे से 01 ऑटो नं0 यूपी 16 साटी 7613(असली नं0 यूपी 16 बीटी 1086) लूटा गया था जिसके संबंध में दिनांक 29/09/2021 को थाना सेक्टर-39 पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इनके द्वारा पूर्व में भी जनपद गाजियाबाद से 01 ऑटो लूटने की घटना कारित की गई है। जिसके कलपुर्जे पुलिस द्वारा बरामद कर लिये गये है।

### **अभियुक्तों का विवरण:**

1. अर्जुन पुत्र अशोक निवास मण्डी जैन भजनपुरा दिल्ली वर्तमान पता ग्राम मढिया, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।(मुठभेड़ में घायल)
2. विश्वास पुत्र मथुरा दास निवासी ग्राम झाझर, थाना ककोड़ जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता ग्राम मढिया, थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।(मुठभेड़ में घायल)
3. मोमराज पुत्र जगदीश निवासी शेखपुर, थाना धनारी, जिला सम्भल।
4. अरविन्द्र उर्फ अर्जुन पुत्र जयराम निवासी अलीपुर खादर, थाना हसनपुर, जिला अमरोहा वर्तमान पता मढिया, थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

### **पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:**

- 1- मु0अ0सं0 780/2021 धारा 307/34 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
- 2- मु0अ0सं0 781/2021 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।
- 3- मु0अ0सं0 782/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-39 नोएडा बनाम अर्जुन पुत्र अशोक।
- 4- मु0अ0सं0 783/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-39 नोएडा बनाम विश्वास।

5-मु0अ0सं0 776/2021 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39 नोएडा।

6-मु0अ0सं0 478/2018 धारा 376/506 भादवि थाना बीटा-2 नोएडा बनाम अर्जुन पुत्र अशोक।

7-मु0अ0सं0 475/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना बीटा-2 नोएडा बनाम अर्जुन पुत्र अशोक।

### **बरामदगी का विवरण:**

1.02 अवैध तमंचे 315 बोर, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

2.घटना में प्रयुक्त 01 ऑटो(श्री व्हीलर) नं0 यूपी 16 साटी 7613(असली नं0 यूपी 16 बीटी 1086) सम्बन्धित मु0अ0सं0 776/2021 धारा 392/411 भादवि

3.01 ऑटो कलपुर्जे खुला हुआ

4.01 ऑटो का इन्जन चोरी

**#गौतमबुद्धनगर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मरीज की मदद के लिए बनाए गये ग्रीन कॉरिडोर की सहायता से चिल्ला बॉर्डर से जेपी हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा तक समय से पहुंची एम्बुलेंस, पुलिस की मदद से बची व्यक्ति की जान।**

दिनांक 01.10.2021 को गंगाराम अस्पताल दिल्ली से जेपी हॉस्पिटल नोएडा में एक मरीज को मानवअंग ट्रांसप्लांट किया जाना था जोकि दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल से नोएडा पहुंचाया जाना था। ये सूचना ट्रैफिक पुलिस नोएडा को मिली। डीसीपी ट्रैफिक श्री गणेश प्रसाद ने इस कार्य की जिम्मेदारी ट्रैफिक इंस्पेक्टर श्री आशुतोष की सौंपी। परिस्थिति की गम्भीरता को देखते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए चिल्ला बॉर्डर पर जाकर वहां से आ रही गाड़ी को रिसीव किया तथा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए एम्बुलेंस को मात्र 14 मिनट में सकुशल जेपी हॉस्पिटल सेक्टर 128 नोएडा तक पहुंचाया। ट्रैफिक पुलिस नोएडा की इस तत्परता के कारण एक व्यक्ति को समय से मदद मिल सकी एवं

उनकी जान बचाई जा सकी। इस सराहनीय कार्य के लिए हॉस्पिटल प्रशासन व मरीज के परिजनों ने ट्रैफिक पुलिस नोएडा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

